

Legal Aid WA आपको अपनी कानूनी समस्याएँ समझने और इनका समाधान करने में मदद देने के तरीके खोजने में आपकी मदद करता है।

हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं, यह आपकी कानूनी समस्या, आपकी व्यक्तिगत परिस्थिति, तथा हमारे संसाधनों पर निर्भर करता है

Legal Aid WA के पास कौन सी सेवाएँ उपलब्ध हैं?

- हमारी वेबसाइट से उपलब्ध निःशुल्क जानकारी, संसाधन और प्रकाशन।
- सूचना के लिए टेलीफोन नम्बर – [1300 650 579](tel:1300650579)
- कानूनी सलाह के लिए अपॉइंटमेंट्स और समस्याओं के बारे में सहायता जिसमें शामिल है:
 - आपराधिक आरोप
 - पारिवारिक विवाद, बाल सहायता, देखरेख और संरक्षण संबंधी आवेदन
 - निरोधक आदेश
 - उपभोक्ता मामले, ऋण, रोज़गार समस्याएँ, संरक्षकता और प्रशासन, बीमा संबंधी दावे, ऋण संबंधी तनाव, मोटर यान संपत्ति नुकसान, सोशल सिक्योरिटी (सामाजिक सुरक्षा), और अपराध के शिकारों के लिए मुआवजा।
- मजिस्ट्रेट्स कोर्ट, चिल्ड्रन्स कोर्ट और फैमिली कोर्ट में सलाह और सहायता के लिए ड्यूटी वकील सेवा। हमारे ड्यूटी वकील मुकदमे पर आपका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं।
- सहायता प्रदान किए जाने के अधीन किसी वकील द्वारा निरंतर प्रतिनिधित्व।
- सामुदायिक समूहों और जन-साधारण के लिए कानूनी शिक्षा संसाधन।

यदि मुझे दुभाषिए की ज़रूरत है तो क्या होता है?

जिन लोगों को अंग्रेज़ी बोलने और समझने में मुश्किल आती है उनकी मदद करने के लिए हम अपनी ओर से श्रेष्ठ प्रयास करते हैं। यदि आप किसी दूसरी भाषा में बात करना पसंद करते/करती हैं, तो मदद के लिए हम किसी दुभाषिए की व्यवस्था कर सकते हैं।



जब आप सूचना सेवा को फोन करते/करती हैं या हमारे किसी कार्यालय में आते/आती हैं, तो हमें बतायें कि आप कौन सी भाषा बोलते/बोलती हैं। हम दुभाषिए की बुकिंग करेंगे और दुभाषिए का प्रयोग करके आपके लिए अपनी कानूनी समस्या के बारे में हमसे बात करने के लिए समय-नियुक्त करेंगे।

यदि आप अपॉइंटमेंट में किसी दुभाषिए का प्रयोग करना चाहते/चाहती हैं, तो कृपया अपॉइंटमेंट के समय हमें बतायें।

यदि आप अदालत जाने वाले/वाली हैं, तो आप अदालत से संपर्क करके आपके लिए दुभाषिए की व्यवस्था करने का निवेदन कर सकते/सकती हैं। यदि आप अदालत में हैं और वहाँ कोई दुभाषिया नहीं है, तो हमारी ड्यूटी वकील सेवा से पूछें कि क्या वह अदालत में आपके मामले को किसी अन्य दिन के लिए स्थगित करने में आपकी मदद कर सकते हैं और अगली बार के लिए दुभाषिया की व्यवस्था करने का निवेदन करें।

हमें संपर्क करें

सूचना सेवा व्यापारिक दिनों में सुबह 9.00 बजे से लेकर शाम 4.00 बजे (WST) तक खुली है – [1300 650 579](tel:1300650579) पर फोन करें।

हमारा मुख्य कार्यालय 32 St Georges Terrace, Perth पर स्थित है। [मुख्य क्षेत्रीय केन्द्रों में भी हमारे कार्यालय स्थित हैं।](#)